



# VedicPrayers .

Ancient Vedic Mantras and Rituals

## MAUNI AMAVASYA 2025 | मौनी अमावस्या क्यों और कैसे मनाई जाती है? | PDF

मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष और पवित्र दिन है, जो माघ माह की अमावस्या (नए चंद्रमा का दिन) को पड़ती है। "मौनी" का अर्थ मौन या चुप्पी है, और "अमावस्या" का मतलब अंधकारपूर्ण चंद्र रात। इसे मौन साधना, आत्मसंयम और ध्यान के लिए समर्पित दिन माना जाता है। इस दिन को आत्मा की शुद्धि और मन को शांत करने का एक अवसर समझा जाता है।

मौनी अमावस्या को गंगा स्नान, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं या अपने पितरों (पूर्वजों) की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं।

### 2025 में मौनी अमावस्या कब है?

मौनी अमावस्या 2025 में **29 जनवरी, बुधवार** को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र स्नान, मौन व्रत, ध्यान, और दान-पुण्य जैसे कर्मों का विशेष महत्व होगा।

### मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है?

मौनी अमावस्या का महत्व धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक आधार पर गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन भगवान मनु ने मनु-स्मृति की रचना की थी और यह दिन सृष्टि के आरंभ का प्रतीक भी है। इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम का पर्व माना जाता है।

इस दिन मौन रहने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। मौनी अमावस्या का एक और महत्व यह है कि इस दिन पवित्र नदियों (विशेष रूप से गंगा) में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है।

[सर्वपितृ अमावस्या](#)  
[मार्गशीर्ष अमावस्या](#)

## मौनी अमावस्या के दौरान क्या करना चाहिए?

### 1. पवित्र स्नान

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यदि नदी में स्नान संभव न हो, तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है।

### 2. मौन साधना

इस दिन मौन व्रत रखना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। यह आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है।

### 3. दान-पुण्य

मौनी अमावस्या के दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन, और तिल दान करने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है।

### 4. पितरों का तर्पण

इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। यह कर्म पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम है।

### 5. ध्यान और योग

इस दिन ध्यान और योग करना आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है।

### 6. भागवत कथा या मंत्र जप

धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना और मंत्रों का जाप करना इस दिन की पवित्रता को बढ़ाता है।

## मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथाएं

### 1. सृष्टि का आरंभ

एक मान्यता के अनुसार, भगवान मनु ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी। इसलिए, इसे सृष्टि के आरंभ का दिन भी माना जाता है।

### 2. गंगा स्नान की महिमा

यह भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

### 3. पितरों का आशीर्वाद

मौनी अमावस्या को पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।

## मौनी अमावस्या पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें

1. इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए।

2. मौन व्रत का पालन करना चाहिए और अनावश्यक बातों से बचना चाहिए।
3. घर में साफ-सफाई का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें।
4. भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें, और उनकी आराधना में मन लगाएं।
5. परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान करें और सकारात्मक वातावरण बनाएं।

मौनी अमावस्या आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और मानसिक शांति का पर्व है। यह दिन व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिकता को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान, मौन साधना, दान-पुण्य, और पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

इस पवित्र दिन पर हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए इन परंपराओं का पालन करना चाहिए और इसे मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाना चाहिए।

Read more religious content on

[Vedic Prayers](#)